

Ref: PPL/JPR/SECT/2025-26

BSE Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Fort,

Mumbai - 400001

Company Code: 524570

National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),

Date: 21st May, 2025

Mumbai - 400051

Company Symbol: PODDARMENT

Sub: Submission of Copy of Newspaper Publication of Audited Financial Results for the quarter and financial year ended 31st March, 2025

Dear Sir(s),

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, please find enclosed herewith copy of newspaper publication published in "Business Standard" (English Edition) and Nafa Nuksan" (Hindi Edition) on 21st May, 2025 relating to Audited Financial Results for the quarter and financial year ended 31st March, 2025, approved by the Board of Directors in the meeting held on 20th May, 2025.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully, For Poddar Pigments Limited

Bipin Kumar Bohra Chief Financial Officer

Encl: As above

Poddar Pigments Limited

Regd. Office & Works: E-10-11 & F-14 to 16 RIICO Industrial Area, Sitapura Jaipur - 302 022 Rajasthan, India. Tel.: +91-141-2770202/03/287/291 Fax: +91-141-2771922

Email: jaipur@poddarpigmentsltd.com CIN: L24117RJ1991PLC006307 GSTIN: 08AAACP1125E1ZZ

TOUCHWOOD ENTERTAINMENT LIMITED

Regd Off: Sec-B, Pkt-1, Space No-301 & 302 LSC-7, Community Centre, Vasant Kunj Sector B New Delhi - 110070

CIN: L92199DL1997PLC088865 Website: www.touchwood.in Contact No : +91 9810108253 Extract of Statement of Audited Consolidated & Standalone Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2025

| ᆫ | (Amount in INR lakhs, except per equity share data) | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | | Consolidated | | | | | Standalone | | | | |
| ı | | Quarter Ended Year Ended | | | Quarter | Ended | Year Ended | | | | | |
| S. No. | Particulars | 31 st March 2025 | 31 st March 2024 | 31" March 2025 | 31 st March 2024 | 31 st March 2025 | 31 st March 2024 | 31 st March 2025 | 31 st March 2024 | | | |
| 1 | Total Income from Operation | 2,493.58 | 2,097.58 | 6,885.45 | 3,324.67 | 2,493.58 | 2,093.41 | 6,885.42 | 3,271.73 | | | |
| 2 | Net Profit before Tax (Before Exception Item) | 185.25 | 188.67 | 700.64 | 445.96 | 189.41 | 196.89 | 722.24 | 484.75 | | | |
| 3 | Net Profit before Tax (After Exception Item) | 185.25 | 188.67 | 700.64 | 446.08 | 189.41 | 196.89 | 722.24 | 484.88 | | | |
| 4 | Net Profit after Tax (After Exception Item) | 135.82 | 137.12 | 517.14 | 323.39 | 139.98 | 145.34 | 538.74 | 362.18 | | | |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period | | | | | | | | | | | |
| l | (Comprising Profit/Loss and Other | | | | | | | | | | | |
| | Comprehensive Income (after tax) | 137.27 | 142.66 | 518.59 | 328.93 | 141.43 | 150.88 | 540.19 | 367.73 | | | |
| 6 | Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each) | 1,108.12 | 1,108.12 | 1,108.12 | 1,108.12 | 1,108.12 | 1,108.12 | 1,108.12 | 1,108.12 | | | |
| 7 | Reserves (Excluding Revaluation Reserve) | | | 2,895.91 | 2,420.19 | | | 3,011.06 | 2,515.19 | | | |
| 8 | Earning per Share | | | | | | | | | | | |
| ı | Basic | 1.24 | 1.29 | 4.68 | 2.97 | 1.28 | 1.36 | 4.87 | 3.32 | | | |
| L | Diluted | 1.24 | 1.29 | 4.68 | 3.06 | 1.28 | 1.36 | 4.87 | 3.42 | | | |

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosur Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity. (www.touchwood.in).

Previous periods figures have been regrouped/rearranged/reclassified wherever considered necessary.



For and on Behalf of Board of Director Touchwood Entertainment Limite Maniit Singh Managing Director

DIN:00996149

Date: 20th May 2025

Place : New Delhi

everest

EVEREST INDUSTRIES LIMITED

CIN: L74999MH1934PLC002093

Registered Office: GAT No. 152, Lakhmapur, Taluka Dindori Nashik - 422202, (Maharashtra) Tel +91 2557 250375/462, Fax +91 2557 250376, compofficer@everestind.com, www.everestind.com,

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025

The Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of Everest Industries Limited ("the Company") for the quarter and year ended March 31, 2025 approved by the Board of Directors of the Company, at its Meeting held on May 19, 2025 along with the Auditors Reports of the Statutory Auditors thereon are available on the website of the Company at the below link and can also be accessed by scanning the below Quick Response ("QR") Code:

> Weblink: https://www.everestind.com/public/storage/quarterly-financial-results/ May2025/6FsPeO89bJgHdiiHsl6o.pdf

> > QR Code:



For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-Rajesh Joshi **Managing Director and CEO** DIN: 08855031

BUILDING SOLUTIONS | ROOFING | WALLS | FLOORS | CEILINGS | CLADDINGS | STEEL BUILDINGS



Place : Mumbai

Date : May 19, 2025

GLAND PHARMA LIMITED

Regd. Office: Survey No. 143-148, 150 & 151, Near Gandimaisamma 'X' Roads, D.P. Pally, Dundigal, Dundigal-Gandimaisamma Mandal, Medchal-Malkajgiri District, Hyderabad -500 043, Telangana, India. CIN: L24239TG1978PLC002276 Tel: +91 84556 99999 Website: www.glandpharma.com; email: investors@glandpharma.com

Statement of Consolidated and Standalone Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2025

In compliance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Board of Directors of the Gland Pharma Limited ("Company") at its meeting held on Tuesday, May 20, 2025 approved the Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter and year ended March 31, 2025

The Results, along with the Audit report(s) (Standalone and Consolidated) by M/s.Deloitte Haskins & Sells, Statutory Auditors of the Company are available on the website of the Company at https://glandpharma.com/investors/financials, and on websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www. nseindia.com respectively.

In compliance with Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations, wehereby notify that the same can also be accessed by scanning the following Quick Response (QR) code:



Gland Pharma Limited

Sd/-**Srinivas Sadu Executive Chairman**

Hyderabad May 20, 2025 For and on behalf of the Board

DIN No. 06900659



REGD. OFFICE: E-10-11 & F-14 TO 16, RIICO INDUSTRIAL AREA, SITAPURA, JAIPUR (RAJASTHAN) CIN: L24117RJ1991PLC006307, Tel. No.: 0141-2770202/03

E-mail address: com.sec@poddarpigmentsltd.com, Website address: www.poddarpigmentsltd.com Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2025

| | | | | | (PS. III Lakii, excep | ot per snare data |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| S. | Particulars | Quarter Ended | Quarter Ended | Quarter Ended | Year Ended | Year Ended |
| No. | | 31.03.2025 | 31.12.2024 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| | | (Audited) | (Unaudited) | (Audited) | (Audited) | (Audited) |
| 1 | Total Income from Operations | 8857.69 | 9190.49 | 9968.27 | 37546.97 | 37551.61 |
| 2 | Net Profit /(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items) | 615.41 | 670.02 | 1190.30 | 3034.94 | 3886.08 |
| 3 | Net Profit /(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items) | 615.41 | 670.02 | 1190.30 | 3034.94 | 3886.08 |
| 4 | Net Profit /(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items) | 514.06 | 495.41 | 874.64 | 2281.80 | 2881.90 |
| 5 | | | | | | |
| | for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 6.44 | (1,563.31) | 682.83 | 1925.63 | 5,469.12 |
| 6 | Equity Share Capital | 1,061.00 | 1,061.00 | 1,061.00 | 1,061.00 | 1,061.00 |
| 7 | Reserves (Excluding Revalution Reserve) as shown in the Audited | | | | | |
| | Balance Sheet of the Previous Year | | | | 35,280.00 | 33,778.77 |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and | | | | | |
| | discontinued operations)- 1. Basic : | 4.85 | 4.67 | 8.24 | 21.51 | 27.16 |
| | 2. Diluted : | 4.85 | 4.67 | 8.24 | 21.51 | 27.16 |

1 The above Audited results were reviewed by the Audit Committee of the Board of Directors in its meeting held on 16th May 2025 and approved by the Board of Directors in the meeting held on 20th May, 2025. The Auditors of the Company have carried out the audit of the same

2 The above is an extract of the detailed format of the result for the quarter and year ended 31st March,2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and year ended 31st March, 2025 is available on the Stock Exchange website www.bseindia.com, www.nseindia.com and Company's website www.poddarpigmentsltd.com.

3 The Board has recommended Dividend of Rs.4/- per share, payable subject to the approval of shareholders in the ensuing Annual General Meeting. Total outgo on this account will be Rs. 424.40 Lacs.

For and on behalf of the Board of Directors For Poddar Pigments Limited

> Gaurav Goenka Joint Managing Director & CEO DIN: 00375811



Place : Jaipur

Date : 20th May, 2025

Coromandel Engineering Company Limited

CIN No: L7490TN1947PLC000343

Registered and Corporate Office: 'BASCON FUTURA' No.10/2, Old No. 56L, Venkatanarayana Road, T. Nagar, Chennai - 600 017. Email: cscecl@cec.coromandel-group.com, Website: www.coromandelengg.com

EXTRACT OF THE AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH 2025 Rs. In lakhs (except EPS)

| | | | | no. iii luki | 3 (except Li o) |
|--|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PARTICULARS | Quarter ended 31-03-2025 Audited | Quarter ended 31-12-2024 Un-audited | Quarter ended 31-03-2024 Audited | Year ended 31-03-2025 Audited | Year ended 31-03-2024 Audited |
| Total Income from Operations | 706.42 | 668.86 | 2,406.72 | 3,130.77 | 9,667.78 |
| Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or extraordinary items) | 303.71 | 54.24 | (21.60) | (95.98) | (383.10) |
| Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items) | 303.71 | 54.24 | (21.60) | (95.98) | (361.89) |
| Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items) | 279.25 | 67.24 | (16.19) | 41.49 | (439.74) |
| Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 515.48 | 67.24 | (16.19) | 277.71 | (439.74) |
| Paid-up Equity Share capital (Face Value of Rs.10 per share) | 3,323.36 | 3,323.36 | 3,323.36 | 3,323.36 | 3,323.36 |
| Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year. | | | | | |
| Earnings Per Share (Face Value of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) - $$ | | | | | |
| Basic: (Rs.) | 0.84 | 0.02 | (0.05) | 0.12 | (1.32) |
| Diluted : (Rs.) | 0.84 | 0.02 | (0.05) | 0.12 | (1.32) |
| The above results were recommended by the Audit Committee and appro- | ved by the Board of D | irectors at their respe | ective meetings held o | on 20 th May 2025 | |

Fhe above results were recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective

2. The above is an extract of detailed format of Audited Financial results for the Quarter and Year ended 31th March 2025 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the website of the stock exchange (www.bseindia.com) and Company's website (https://www.coromandelengg.com). The same can be accessed by scanning the QR Code.

Place: Chennai Date: 20th May 2025



For & on behalf of the Board of Coromandel Engineering Company Limited

Chairman and Managing Director DIN: 09707546



emami paper mills limited

Registered office: 687, Anandapur, 1st Floor, E.M Bypass, Kolkata - 700107

Phone No. 033 6613 6264, Website: www.emamipaper.com, Email: investor.relations@emamipaper.com

Extract of Statement of audited financial results for the quarter and year ended 31st March 2025

| | | | | (F | Rs in crores) |
|---|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | | Quarter Ended | Year E | Ended | |
| et Profit/(loss) for the period (before exceptional items and tax) et Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional items) et Profit/(loss) for the period after tax (after exceptional items) | 31.03.2025 | 31.12.2024 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| Particulars | (Audited) | (Unaudited) | (Audited) | (Audited) | (Audited) |
| Total Income from operations (Net) | 474.95 | 454.31 | 484.47 | 1,928.04 | 1,993.84 |
| Earning before Interest, Depreciation and Tax (EBITDA) | 34.39 | 30.68 | 72.11 | 147.55 | 240.15 |
| Net Profit/(loss) for the period (before exceptional items and tax) | 4.01 | 1.79 | 35.40 | 33.39 | 112.15 |
| Net Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional items) | 4.01 | 1.79 | 35.40 | 33.39 | 112.15 |
| Net Profit/(loss) for the period after tax (after exceptional items and tax) | 3.92 | 1.70 | 27.19 | 26.01 | 84.30 |
| Total Comprehensive Income for the period (after tax) | 1.41 | (11.38) | 15.36 | 38.19 | 89.97 |
| Paid up Equity Share Capital (Face value Rs.2/- each) | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |
| Other equity | | | | 499.25 | 518.49 |
| Earnings Per share (of Rs.2 each) | | | | | |
| Basic (in Rs.) | 0.45 | 0.08 | 4.29 | 3.49 | 13.12 |
| Diluted (in Rs.) | 0.45 | 0.08 | 3.42 | 3.32 | 10.61 |

The above is the extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter/Year end Financial Results are available on the website of BSE at www.bseindia.com, on the website of National Stock Exchange of India at www.nseindia.com and on the website of the Company at www.emamipaper.com

Dated: 20th May, 2025 Place: Kolkata

For and on behalf of the Board Vivek Chawla Whole-time Director and CEO DIN: 02696336



RAMINFO LIMITED

Regd. Off: Unit No. 1609, 16th Floor, Orbit, Plot No. 30C, Sy. No. 83/1, Hyderabad Knowledge City, TSIIC, Madhapur, Shaikpet, Hyderabad-500081, Telangana, India CIN: L72200TG1994PLC017598

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025

| TEAR ENDED HIARCH 31, 2023 (RS. III LAKIIS) | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | s | TANDALONE | | CONSOLIDATED | | | | | | |
| SI. No. | PARTICULARS | Quarter Ended 31.03.2025 Audited | Year Ended 31.03.2025 Audited | Quarter Ended 31.03.2024 Audited | Quarter Ended 31.03.2025 Audited | Year Ended 31.03.2025 Audited | Quarter Ended 31.03.2024 Audited | | | | |
| 1. | Total Revenue from Operations | 449.62 | 2062.99 | 2492.93 | 448.32 | 2061.70 | 2492.93 | | | | |
| 2. | Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 39.32 | 182.38 | 74.03 | 44.13 | 189.55 | 91.97 | | | | |
| 3. | Net profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items) | 39.32 | 182.38 | 74.03 | 44.06 | 189.27 | 92.20 | | | | |
| 4. | Net profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items) | 50.78 | 171.06 | 31.09 | 55.52 | 177.95 | 42.38 | | | | |
| 5. | Total comprehensive income for the period [comprising profit after tax and other comprehensive income (after tax)] | 50.78 | 171.06 | 26.25 | 55.52 | 177.95 | 37.54 | | | | |
| 6. | Paid up Equity Share Capital (Rs.10/- per equity share) | 75.42 | 75.42 | 75.42 | 75.42 | 75.42 | 75.42 | | | | |
| 7. | Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the balance sheet of previous year ended) | - | 4371.27 | - | - | 4338.83 | - | | | | |
| 8. | Earnings Per Share (of Rs.10/-each) (Not annualized): | | | | | | | | | | |
| | a) Basic (in Rs.) | 0.67 | 2.27 | 0.45 | 0.74 | 2.36 | 0.69 | | | | |
| | b) Diluted (in Rs.) | 0.67 | 2.27 | 0.45 | 0.74 | 2.36 | 0.69 | | | | |
| No | toc | | | | | | | | | | |

Date: 19.05.2025

Place: Hyderabad

The above is an extract of the detailed format of the audited financial results for the quarter and twelve months ended March 31, 2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results for the Quarter and twelve months ended March 31, 2025 are available on the website of the BSE Limited i.e. www.bseindia.com, on the Stock Exchange where the Company's shares are listed and on the website of the Company i.e.,www.raminfo.com



For and on behalf of the Board L. Srinath Reddy Managing Director DIN: 03255638





















For Your Information

Top 10 most valuable restaurant brands



Starbucks: \$60.7B McDonald's: \$38.0B

KFC: \$14.2B

Subway: \$7.2B

Taco Bell: \$7.1B

Domino's Pizza:

\$6.1B

Tim Hortons: \$5.9B **Burger King: \$5.2B**

Pizza Hut: \$5.1B

Chipotle: \$4.9B Compiled by Nafanuksan Research

अमृत वचन



हमारी पहचान है। गुरू वो जादुई कला है जिससे ग्रैर इंसान भी आसमान तक पहुंच सकता है।

Thoughts of the time

Help thy brother's boat arcss, and lo! thine own has reached the shore.

- Hindu Provedo

f your plan "A" doesn'twork

the Alphabet has 25 more

letters. Stay Cool!

राजस्थानी कहावत

घरणी विह्ण घर भूतां री डेरी घरनी बिन घर भूत का डेरा

■ घर में भले दूसरी कितनी ही सजावट हो, परिवार में अन्य कितने ही बाल-बच्चे और सदस्य हों, पर घरवाली के बगैर घर भतों के डेरे जैसा लगता है।

> -स्व. विजय दान देथा साधार : रूपायन संस्थान, बोरूंटा

इंडिया का मेन्यूफेक्चरिंग सेक्टर ग्लोबल निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक : एसएंडपी अध्ययन



विनिर्माण क्षेत्र को ग्लोबल निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। एसएंडपी ग्लोबल के एक अध्ययन में यह बात कही गई। इसके मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति में चल रहे बदलावों से भारत को लंबे समय में लाभ होगा। एसएंडपी ग्लोबल इंडिया के इस अध्ययन में कहा गया कि अर्थव्यवस्थाओं द्वारा खुद को बदलते व्यापार के हिसाब से ढालने और शुल्क चुनौतियों के अनुकूल होने के साथ भारत विनिर्माण बढ़ाने और ग्लोबल आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण के लिए इस मौके का फायदा उठा सकता है। इस अध्ययन का शीर्षक 'इंडिया फॉरवर्ड्ः ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव्स' है। इसमें कहा गया कि स्थानीय स्तर पर काम कराने, अंतिम बाजारों से निकटता और बढे हुए क्षेत्रीय एकीकरण के चलते इस क्षेत्र में अतिरिक्त निवेश आना चाहिए, जिससे भारत की तकनीकी उन्नति और विनिर्माण प्रतिस्पर्धा में तेजी आएगी। अध्ययन के मुताबिक, इस दौरान विनिर्माण क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसर तैयार होंगे। अध्ययन में कहा गया, ''आगे चलकर ग्लोबल व्यापार नीति में बदलाव से आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण को बढावा मिलेगा, जो भारत के लिए लाभकारी होगा।"

उद्यमियों को राज्य सरकार की आठ नई नीतियों से कराया अवगत

जयपुर@कार्यालय संवाददाता

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट सिमट के संबंध में जयपुर में राज्य सरकार के औद्योगिक निवेश को लेकर हाल ही जारी नीतियों एवं योजनाओं पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। जिला उद्योग केन्द्र एवं 22 गोदाम इंडस्टीयल एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में निवेश प्रोत्साहन और औद्योगिक विकास से जुड़ी 8 महत्वपूर्ण योजनाओं तथा नीतियों के संबंध में उद्यमियों तथा निवेशकों को जानकारी दी गई।

जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबन्धक शिल्पी पुरोहित ने बताया कि कार्यशाला में अतिरिक्त आयुक्त एस.एस.शाह ने विभागीय योजनाओं के बारे में अवगत कराया एवं उद्यमियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया तथा इन योजनाओं एवं नीतियों के लाभों की जानकारी दी।

कार्यशाला में प्रतिभागियों को उद्योग रजिस्ट्रेशन, जैम पोर्टल की जानकारी एवं उद्यम स्थापना में आवश्यक दस्तावेजों और एनओसी प्रमाण पत्र के विषय में जानकारी प्रदान की गई।

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन कार्यशाला का आयोजन



जिनमें एक जिला एक उत्पाद, एमएसएमई पॉलिसी-2024, रिप्स- 2024, लॉजिस्टिक पॉलिसी-2024, डेटा सेंटर पॉलिसी-2025, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, राजस्थान की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई।

कार्यशाला में 8 महत्वपूर्ण योजनाओं एवं नीतियों एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2024, राजस्थान टैक्सटाइल एण्ड एपेरल-2025 पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। इस दौरान एक जिला एक उत्पाद एवं जीईएम योजना के तहत ऑन-द-स्पॉट रजिस्ट्रेशन

साउथ कोरिया व राजस्थान के बीच व्यापार की नई संभावनाओं पर चर्चा

जयपुर@कार्यालय संवाददाता

प्रदेश के उद्यमी और व्यापारी सीधे तौर पर साउथ कोरिया के साथ व्यापार कर सकेंगे। इसके लिए फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) की ओर से साउथ कोरिया और राजस्थान के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक सम्मेलन का आयोजन

इसमें फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल यूथ विंग अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, उप उपाध्यक्ष आनंद पोद्दार, उपाध्यक्ष डॉ संजय पाराशर, ब्रांच डवलपमेंट चेयरमैन मनीष अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य धर्मपाल अग्रवाल, फोर्टी सदस्य राहुल खंडेलवाल, मिलन अग्रवाल इसमें दक्षिण कोरिया से कॉस्मेटिक.



मेडिसिन और फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए उद्योगपतियों के साथ जून, किम जोंग वॉन, चोई हक जू शामिल हुए।

अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि फोर्टी ने सरकार के सहयोग से राजस्थान के एक्सपोर्ट को

का एक्सपोर्ट करीब 80 हजार करोड रुपए का है। हम उम्मीद करते हैं अगले 3 साल में यह आंकड़ा 150 हजार करोड़ रुपए के पार होगा। इस मिशन के तहत फोर्टी निरंतर दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संभावनाओं अगले 3 साल में दुगना करने का को तलाश रहा है। फोर्टी यथ विंग लक्ष्य रखा है। वर्तमान में राजस्थान अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने बताया कि

साउथ कोरिया राजस्थान का व्यापारिक मित्र देश है। नीमराणा (अलवर) में राज्य सरकार ने कोरियन इंडस्टीयल पार्क भी बनाया है, जहां कोरियन कंपनियों के प्लांट हैं। इस बैठक का उद्देश्य राजस्थान के व्यापारियों को जापानी कंपनियों के साथ व्यापार बढ़ाने की जानकारी साझा करना था। कार्यक्रम के संयोजक डॉ संजय पाराशर ने बताया कि फोर्टी और सरकार दोनों का प्रयास है कि चीन से इंपोर्ट पर निर्भरता कम की जाए और चीन की जगह मित्र देशों के साथ व्यापारिक संबंध बढाए जाएं। इसके लिए दक्षिण कोरिया सबसे बेहतर विकल्प है। जल्द ही फोर्टी का एक प्रतिनिधिमंडल द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए दक्षिण कोरिया की यात्रा करेगा।

ब्रीफ न्यूज

उदयपुर व जोधपुर में होगा ट्रेवल मार्ट का आयोजन

उदयपुर@नि.सं.। पर्यटन और कला के क्षेत्र में ट्रेवल की बढ़ती भूमिका को देखते हुए अब उदयपुर और जोधपुर में भी ट्रेवल मार्ट्स का आयोजन किया जाएगा। इसी ऋम में पर्यटन विभाग उदयपुर द्वारा आरटीडीसी होटल काजरी में पर्यटन क्षेत्र के स्टेकहोल्डर्स, ट्रेवल एजेंट्स, होटल एसोसिएशन और यूसीसीआई के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

संयुक्त निदेशक पर्यटन सुमिता सरोच ने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश को एक मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस बेस्ड डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना है। उदयपुर में ट्रेवल मार्ट का आयोजन इस पूरे संभाग के पर्यटन को एक नया आयाम देगा। उदयपुर में होने वाले ट्रेवल मार्ट में देश भर से पर्यटन के स्टेकहोल्डर्स उपस्थित रहेंगे। ट्रेवल मार्ट के जरिए वेडिंग ट्रिन्म में अग्रणी उदयपुर को आने वाले समय में कॉर्पोरेट आयोजनों और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए भी एक उपयुक्त स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

बैठक में पर्यटन विभाग से शिखा सक्सेना उपनिदेशक दिव्यानी वर्डिया सहायक निदेशक नील राठौड पर्यटन अधिकारी व पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधियो, यूसीसीआई प्रतिनिधियो, सुदर्शन देव सिंह प्रेसिडेंट होटल एसोसिएशन, यु बी श्रीवास्तवए प्रेसिडेंट यूएचयूए नरपत सिंह, प्रेसिडेंट ट्रेवल एसोसिएशन, जी एस सिसोदिया, प्रेसिडेंट एचएसडीआर ने भाग लिया और ट्रेवल मार्ट के आयोजन को लेकर अपने विचार एवं सुझाव साझा किए। बैठक में प्रेसिडेंट युएचयु के द्वारा ट्रैवल मार्ट हेतु तीन दिवसीय आयोजन का प्रस्ताव रखा गया जिसमें प्रथम दिवस को उद्घाटन व दूसरे व तीसरे दिन बी2बी मीटिंग आयोजित किए जाने का प्रस्ताव दिया।

मानकीकरण के आयाम पर कार्यशाला का आयोजन

जयपुर@का.सं.। उपभोक्ता मामले विभाग एवं भारतीय मानक ब्युरो के संयुक्त तत्वावधान में उपभोक्ता हित में 'मानकीकरण के विभिन्न आयाम' विषय पर इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जयपर में कार्यशाला का आयोजन किया गया।

मुख्य अतिथि सुबीर कुमार, प्रमुख शासन सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग ने मानकीकरण के परिप्रेक्ष्य में हॉलमार्किंग से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए बहुमूल्य धातुओं के आभूषणों को भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकृत चिन्ह, आभूषण में सोने की शुद्ध मात्रा व HUID संख्या की सुनिश्चितता उपरान्त ही खरीदने हेतु जागरूकता का सन्देश दिया। उन्होंने दैनिक उपयोग की वस्तुओं को मानकों के अनुरूप खरीदे जाने पर बल देते हुए मानकीकृत उत्पादों के उपयोग पर प्रकाश डाला।

कार्यशाला में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के परिप्रेक्ष्य में मानकीकरण पर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण संबंधित सभी विषयों पर अधिनियमों के प्रावधानों एवं उनके व्यावहारिक उपयोग पर प्रकाश डालते हुए Bis Care App, ISI, FSSAI, हॉलमार्किंग, एगमार्का आदि के बारे में न्यायालय में दर्ज परिवादों के आलोक में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने परिवाद दर्ज कराने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया।

नेशनल • इंटरनेशनल

मनी लांड्रिंग कानून

राहत के लिए एक साल जेल में रहना

नयी दिल्ली@एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने एक व्यवसायी को जमानत प्रदान करते हुए कहा है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि धनशोधन के आरोपी व्यक्ति को राहत मिलने से पहले एक साल जेल में रहना होगा।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने 2,000 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाला मामले में व्यवसायी अनवर ढेबर को जमानत दे दी और कहा. ''जमानत पाने के लिए एक साल

तक हिरासत में रहने का नियम नहीं है।'' डेबर को पिछले वर्ष में गिरफ्तार गया था अ महीने से अ समय उसर बिताया। उ न्यायालय कि कथित के लिए अ सजा सात तथा गवाहे बडी संख्या देखते हए खिलाफ मु शीघ्र शुरू संभावना न इसने कहा, ''अपीलकर्ता को 8 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था। 40 गवाहों को पेश किया गया है।

जांच जारी है। इस

गवाह हैं। इस तरह

निकट भविष्य में

मामले में 450

संभावना नहीं है। अधिकतम सजा सात साल है।'' सेंथिल बालाजी मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि ढेबर को कड़े नियमों व शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, ''यदि कोई पासपोर्ट है तो उसे यह जमा करना होगा।'' प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने पीठ से आरोपी को जमानत पर रिहा न करने का आग्रह करते हुए कहा कि उसे पिछले साल अगस्त में

गिरफ्तार किया गया था और उसे हिरासत में लिए हुए एक साल भी नहीं हुआ है। ईडी के वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत विभिन्न मामलों में जमानत देने के लिए ''एक साल की हिरासत के मानदंड'' का पालन करती रही है और ढेबर के मामले में भी इसी मानदंड का पालन किया जाना चाहिए। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालत से कहा कि वह विशेष अदालत द्वारा तय शर्तों पर आरोपी को एक सप्ताह के भीतर रिहा कर दे।

कांग्रेस नेता और रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर को धनशोधन के मामले में सबसे पहले गिरफ्तार यह मामला आयकर विभाग

द्वारा छत्तीसगढ़ और कुछ अन्य राज्यों में शराब व्यापार में कथित कर चोरी और अनियमितताओं के संबंध में दायर आरोपपत्र से उत्पन्न हुआ था।

बांग्लादेश से इंपोर्ट् पर इंडिया के बंदरगाह प्रतिबंध से एमएसएमई को मदद मिलेगी : विशेषज

नयी दिल्ली@एजेंसी। भारत के कुछ बांग्लादेशी वस्तुओं पर लगाए गए प्रतिबंधों से घरेलू रेडीमेड (सिलेसिलाए) कपडा उद्योग, विशेष रूप से एमएसएमई को अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत ने 17 मई को बांग्लादेश से 77 करोड डॉलर के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया, जो द्विपक्षीय



इंपोर्ट का लगभग 42 प्रतिशत था। टैक्सटाइल, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और प्लास्टिक की वस्तुओं जैसे प्रमुख सामान अब चुनिंदा समुद्री बंदरगाहों तक सीमित हैं या भूमि मार्गों से पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। कुल 61.8 करोड़ डॉलर मूल्य के सिलेसिलाए कपड़ों को अब केवल दो भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से सख्त मार्ग का सामना करना पड़ रहा है। यह बांग्लादेश के भारत के लिए सबसे मूल्यवान एक्सपोर्ट चैनल को गंभीर रूप से सीमित करता है। शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने कहा, भारतीय कपडा कंपनियों ने लंबे समय से बांग्लादेशी एक्सपोर्टकों द्वारा प्राप्त प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त का विरोध किया है, जो शुल्क मुक्त चीनी कपड़े के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सब्सिड़ी से लाभान्वित होते हैं. जिससे उन्हें भारतीय बाजार में 10-15 प्रतिशत मुल्य लाभ मिलता है।

REGD. OFFICE: E-10-11 & F-14 TO 16, RIICO INDUSTRIAL AREA, SITAPURA, JAIPUR (RAJASTHAN) - 302022 राजस्थान सिलेण्डर्स एण्ड कन्टेनर्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय :एसपी-825, रोड नं. 14, वीकेआई एरिया, जयपुर-302013, फोन: 91-141-4031771-2 E: info@bajoriagroup.in; W: www.bajoriagroup.in; CIN No: L28101RJ1980PLC002140

| र्व अगस्त | | 317 | मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक वर्ष व | क्रे लिए स्टैण्डा | एलॉन अंकेक्षि | त वित्तीय परि | | रणों का सार शि लाखों में) |
|---------------|---|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| र किया | ı | _ | | | समाप्त तिमाह | វ្រិ | समाप्त वार् | र्षेक वर्ष |
| गौर नौ | П | क्र. सं. | विवरण | 31.03.2025 | 31.12.2024 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| अधिक | L | `** | | (अंकेक्षित) | (गैर अंकेक्षित) | (अंकेक्षित) | (अंकेक्षित) | (अंकेक्षित) |
| | | 1. | क) परिचालन से राजस्व | | | | | |
| ने जेल में | П | | ख) अन्य आय | 20.90 | 22.97 | 11.72 | 91.60 | 100.46 |
| | П | | कुल आय | 20.90 | 22.97 | 11.72 | 91.60 | 100.46 |
| उच्चतम | П | 2. | अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(कर, | | | | | |
| ने कहा | П | | असाधारण और / या असाधारण वस्तुओं से पहले) | (39.42) | (33.39) | (34.57) | (147.46) | (69.68) |
| | П | 3. | कर के पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ /(हानि) | | | | | |
| । अपराध | П | 4. | (असाधारण और / या असाधारण वस्तुओं से बाद) | (39.42) | (33.39) | (34.57) | (147.46) | (69.68) |
| प्रधिकतम | П | 4. | कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाँभ/(हानि) (असाधारण और / या असाधारण वस्तुओं से बाद) | (8.44) | (24.95) | (26.48) | (86.37) | (72.46) |
| | П | 5. | वंद किए गये परिचालन से लाभ/(हानि) | (39.55) | | (9.81) | | (62.14) |
| वर्ष है | П | 6. | बद किए गर्थ परिचालन से लाभ/(हान) कर के बाद बंद परिचालन से अवधि/वर्ष के लिए | (38.55) | 0.01 | (9.81) | (41.87) | (02.14) |
| 2: -2 | П | ٥. | शृद्ध लाभ/(हानि) | (22.85) | (0.02) | (16.58) | (24.53) | (64.62) |
| हों की | П | 7. | अवधि के लिए लाभ/(हानि) | (31.29) | (24.97) | (43.06) | (110.90) | (137.08) |
| गको ॑ | П | 8. | अवधि के लिए कुल व्यापक आय | (01.20) | (24.07) | (40.00) | (110.00) | (107.00) |
| | П | - | (अवधि के लिए व्यापक लाभ/हानि)(कर के | | | | | |
| ढेबर के | П | | बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद), | (24.14) | (24.74) | (43.39) | (103.07) | (136.17) |
| المحال | П | 9. | समता अंश पुंजी | 336.16 | 336.16 | 336.16 | 336.16 | 336.16 |
| नुकदमा | П | 10. | बैलेंस शीट के अनुसार पुनर्मूल्यांकन अधिशेष को | | | | | |
| होने की | П | | छोड़कर अन्य इक्विटी | | | | 1007.25 | 1110.33 |
| | | 11. | आय प्रति शेयर् रु. 10/- प्रति का (मूल/तरल) | | | | | |
| नहीं है। | | | (संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए) | | | | | |
| r. I | | | 1. मूल | (0.93) | (0.74) | (1.28) | (3.30) | (4.08) |
| | | | | | | | | |

(1) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पा अराजा विद्याला स्वार्ण सच्या पूर्वाबब्द्धता एवं प्रकटाकराजावाद्यकारा)ावाच्यम्, 2013 का वायाच्यम 33 कालारा स्टाक एक्स वय का बार दाखिल की गई समाप्त तिमाडी एवं वार्षिक वर्ष के अंकेक्षित वितारीय पिणामां के वित्तत प्रारूप का सार है। समाप्त तिमाडी एवं वार्षिक वर्ष व अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट

(www.bajoriagroup.in) पर उपलब्ध हैं। 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिसाही एवं समाप्त वार्षिक वर्ष के उपर्युक्त अंकक्षित विलीय परिणाम की समीक्षा एवं सिफारिश लेखा परीक्षा समिति हारा को गई एवं 20 महें, 2025 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल हारा अनुमादित किया गया। कंपनी के अंकक्षित स्टैण्डअलोन विलीय परिणाम भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी-एएस) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा

(0.93) (0.74) (1.28) (3.30) (4.08)

133 एवं भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय मण्डल (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के नियम 33 व 133 एवं भारताच आप प्राप्त तहत निर्वारित किए गए हैं। पिछली अविधयों / वर्षों के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक समझे गये हैं, उन्हें पुनः व्यवस्थित/ पुनर्वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय परिणाम नीचे दिए गए प्रतिक्रिया कोड को स्कैन करके भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ब तेहैं। बोर्ड के आदेशानुसा वास्ते राजस्थान सिलेण्डर्स एण्ड कन्टेनर्स लिमिटेः

Date : 20th May. 2025

PODDAR PODDAR PIGMENT

CIN: L24117RJ1991PLC006307, Tel. No.: 0141-2770202/03 E-mail address : com.sec@poddarpigmentsltd.com, Website address : www.poddarpigmentsltd.com

Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2025

| | | | | | (Rs. in Lakh, excep | ot per snare da |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| S. | Particulars | Quarter Ended | Quarter Ended | Quarter Ended | Year Ended | Year Ended |
| No. | | 31.03.2025 | 31.12.2024 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| | | (Audited) | (Unaudited) | (Audited) | (Audited) | (Audited) |
| 1 | Total Income from Operations | 8857.69 | 9190.49 | 9968.27 | 37546.97 | 37551.61 |
| 2 | Net Profit /(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items) | 615.41 | 670.02 | 1190.30 | 3034.94 | 3886.08 |
| 3 | Net Profit /(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items) | 615.41 | 670.02 | 1190.30 | 3034.94 | 3886.08 |
| 4 | Net Profit /(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items) | 514.06 | 495.41 | 874.64 | 2281.80 | 2881.90 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) | | | | | |
| | for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 6.44 | (1,563.31) | 682.83 | 1925.63 | 5,469.12 |
| 6 | Equity Share Capital | 1,061.00 | 1,061.00 | 1,061.00 | 1,061.00 | 1,061.00 |
| 7 | Reserves (Excluding Revalution Reserve) as shown in the Audited | | | | | |
| | Balance Sheet of the Previous Year | | | | 35,280.00 | 33,778.77 |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- | | | | | |
| | 1. Basic : | 4.85 | 4.67 | 8.24 | 21.51 | 27.16 |
| | 2. Diluted : | 4.85 | 4.67 | 8.24 | 21.51 | 27.16 |

1 The above Audited results were reviewed by the Audit Committee of the Board of Directors in its meeting held on 16th May, 2025 and approved by the Board of Directors in the meeting held on 20th May, 2025. The Auditors of the Company have carried out the audit of the same

The above is an extract of the detailed format of the result for the quarter and year ended 31st March, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and year ended 31st March, 2025 is available on the Stock Exchange website www.bseindia.com, www.nseindia.com and Company's website www.poddarpigmentsltd.com

The Board has recommended Dividend of Rs.4/- per share, payable subject to the approval of shareholders in the ensuing Annual General Meeting. Total outgo on this account will be Rs. 424.40 Lacs.



For and on behalf of the Board of Directors For Poddar Pigments Limited

> Gaurav Goenka Joint Managing Director & CEO DIN: 00375811



(अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक

DIN: 01402573